



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 1977/भाद्र 16, 1899

No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 1977/BHADRA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1977

का० नि० आ० 18-ई०—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 39-अ, तारीख 9 सितम्बर, 1976 द्वारा यह घोषित किया था कि दिल्ली छावनी के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, दिल्ली के सविधान को परि-वर्तित करना वांछनीय है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि दिल्ली छावनी के प्रशासन के लिए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाना वांछनीय है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को 30 जून, 1978 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[सं० फा० 29/13/सी/एल एण्ड सी/76/2262-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

## MINISTRY OF DEFENCE

## NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 7th September 1977*

**S.R.O. 18-E.**—Whereas the Central Government by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 39-E dated the 9th September, 1976 had declared that for the administration of Delhi Cantonment, it was desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Delhi;

And Whereas the Central Government is satisfied that for the administration of the Cantonment Delhi, it is desirable to extend the term of the office of the said Board;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board up to and inclusive of the 30th June, 1978.

[No. F. 29/13/C/L&C/76/2262-C/D(Q&C)]

का० नि० धा० 19-ई०.—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उपधारा (3) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित व्यक्ति केन्द्र के कमान अधिकारी द्वारा छावनी बोर्ड, दिल्ली के सदस्य, 9 सितम्बर, 1977 से 30 जून, 1978 तक के लिए जिसमें वह दिन भी सम्मिलित हैं, नामनिर्देशित किए जाते हैं —

1. कर्नल एस० एन० सरकार . . . धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्देशित ।
2. ए० जे० एलोसियस मुपुत्र श्री मैथ्यू . . . धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशित ।

[स० फा० 29/13/सी/एल एण्ड सी/76/2262-सी/1/डी (क्यू एंड सी) ]

बी० बी० सहाय, संयुक्त सचिव ।

**S.R.O. 19-E.**—In pursuance of sub-section (3), read with clauses (b) and (c) of sub-section (2), of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that the following persons have been nominated by the Officer Commanding the Station to be the members of the Cantonment Board, Delhi with effect from 9th September, 1977 up to and inclusive of the 30th June, 1978, namely.—

- |   |   |
|---|---|
| 1. Col S. N. Sarkar                         | Nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14 |
| 2. Dr. A. J. Aloysius<br>son of Shri Mathew | Nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14 |

[No F. 29/13/C/L&C/76/2262-C/1/D (Q&C)]

B B SAHAY, Jt Secy

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977